
















## न्यूज़ ब्रीफ

वर्ल्ड कप से पहले कपिल देव की शोहित को सलाह दी। कपिल देव ने कहा, रोहित को कपान के तौर पर और ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए।



बैंगलुरु। बनडे वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले पूर्व भारतीय कपान कपिल देव की शोहित शर्म को सलाह दी है। कपिल देव ने कहा, रोहित को कपान के तौर पर और ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। कोचिं में एक ड्रेट के दौरान बातचीत करते हुए 1983 वर्ल्ड कप विजेता कपिल देव ने कहा, बैंगलुरु काफी जबरदस्त चौंक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खत्म हुई ऐश्वर्या रीवाज हाल के दिनों की बैंगलुरु रीवाज में से एक थी जो मैं देखी है। मेरे हिसाब से किफेट इसी तरह से खेला जाना चाहिए। रोहित शर्म अच्छे कपान हैं, लेकिन हमें और ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि इंडिया जैसे बातें ताजमहल में कुछ लोग हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लेकर पहुंचते हैं।

आगाम।

12 साल बाद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें अब 50 दिन से कम समय रह गया है। इसे में आईसीसी ने प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे ताजमहल में कुछ लोग हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लेकर पहुंचते हैं।

ट्रॉफी को ताजमहल के बीड़ियों शृंखलाकर्म पर रख दिया गया। जैसे ही पर्वटकों की नजर ट्रॉफी पर पड़ती तो रुक गए। फिर ट्रॉफी के सामने संलग्न लेने और गीड़ियों बनवाने के लिए पर्वटकों में होड़ लग गई। सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित से लोलों को संभाला। बाद में लोलों ने दूर से ही फोटो और गीड़ियों को शृंखला करए। इस बीड़ियों की तारीख ताजमहल के बारे में यह दूरी से खेला जाता है। इस बीड़ियों की तारीख ताजमहल के बारे में यह दूरी से खेला जाता है।

1 घंटे शुटिंग चली, इसमें आईसीसी या बीड़ियोंसीआई से कौन था, ये जानकारी नहीं - ताजमहल के संरक्षण सहायक प्रिंस वालेयों ने बताया कि आईसीसी की ओर से उनसे ट्रॉफी के शृंखला लेकर परमितांग मार्गी गई थी। करीब एक घंटे तक शुटिंग चली। शृंखला में आईसीसी या बीड़ियोंसीआई की ओर से कौन था, ये जानकारी नहीं है।

अंतरिक्ष में लॉन्च हुई थी ट्रॉफी - दो माह पहले अंतरिक्ष में ट्रॉफी की लाइनिंग की गई थी। आईसीसी ने अमेरिकी की प्रावेट स्पेस एजेंसी सेंट इंडु स्पेस की मदद से ट्रॉफी को ट्रॉल के साथ अंतरिक्ष में भेजा। फिर पहुंच की सहत से 12 हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद स्ट्रॉटोस्क्रिप्टर में ट्रॉफी को आनवाक्य किया गया। उसके बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्ट्रेडियम में ट्रॉफी को लैंड कराया गया। इसके साथ ही ट्रॉफी के बल्डर दूर का एलान भी किया गया था।

18 दिनों का सफर करके भारत लौटी हैट्रॉफी - वहीं, लॉन्चिंग के बाद 27 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड ट्रॉफी के तहत यह ट्रॉफी 18 दिनों का सफर करके भारत लौटी। अब ट्रॉफी को भारत के अलां-अलग शहरों में लैजाना जा रहा है। इससे पहले ट्रॉफी को लैंड करें तो यह दूर 6 साल तक वर्ल्ड से जुड़े रहे।



## नेगार ने सऊदी वर्ल्ड कप के 818 करोड़ का कराएः रोनाल्डो के बाद दूसरे टॉप फुटबॉलर; रोनाल्डो के पास 625 करोड़ की डील

सउदी अरब। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जनियर ने सऊदी करब के बाद अल दिलाल के साथ 818 करोड़ रुपय (90 मिलियन युरो) का कराएः पहले पुरुषाल के फुटबॉल स्टार इतिहास रोनाल्डो ने अल दिलाल के साथ 75 मिलियन डॉलर (करीब 625 करोड़ रुपय) का कराएः किया था। उनकी डील 2025 तक के लिए है। 15 अगस्त को करार की घोषणा सउदी अरब के बाबत अल दिलाल ने की। नेमार का करार दो साल के लिए है। नेमार ने साल 2017 में पीएसजी से करीब 2000 करोड़ रुपय में करार किया था। वह 6 साल तक वर्ल्ड से जुड़े रहे।

# सफलता की होड़ में उधड़ते मानवीय रिश्ते



पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव ने हमारे देश में भौतिकवाद को प्रोत्साहित दिया है और अब तो पढ़े लिखे हों या नहीं सभी सुख-सुविधाओं के जाल में फँसते जा रहे हैं। भारतीय अचातम ज्ञान के बारे में जानते सभी हैं पर उसे धारण करना लोगों को अब पिछड़ापन दिखाई देता है। नीतीजा यह है कि समाज में आपसी रिश्ते एक अपचारित बनकर रह गए हैं।

## सिर्फ सांसारिक शिक्षा काफी नहीं

अक्सर अनेक लोग शिक्षाकार्त करते हैं कि उनके बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं अथवा उनकी देखभाल नहीं करते। इसके दो कारण होते हैं एक तो यह कि नए सामाजिक परिवेश से तालमेल न बिटा पाने के कारण लोग अपने माता-पिता को ल्याप देते हैं या पिरव वह व्यवसायों के सिलिंसिले से उनसे दूर हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों का विश्लेषण करने पर अनुभव होगा कि अधिनुक युग के समस्त माता-पिता अपने बच्चों का यह अपेक्षा करते हैं जिसका वह इस मायावी दुनिया में उच्च से उच्च पद प्राप्त कर, अधिक से अधिक धनांजन करें और भरपूर मान प्रतीक्षा की दुनिया में चमकता रहना। उनका वे अपना मान रोशन करें। लोग बच्चों की कामयादी के सपने देखते हैं और केवल जानवरी के विश्वासीकार रिश्ते का तह तक ही अपने बच्चों को समीक्षित रखते हैं। यहीं तो अपना पेट पाला यहीं सिखते हुए वह ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे कि वह दुनियां का कोई विशेष ज्ञान दे रहे हैं। यह तो एक सामान्य चुरुआई, जिसे सब जानते हैं।

## सभी सुविधाओं के बाद भी अशांत रहता है मन

यह उन माता-पिता का भ्रम है कि शिक्षा तो सभी स्वतः ही प्राप्त करते हैं पर जिन बच्चों को उनके माता-पिता इसके साथ ही अध्यात्मा, ईश्वर और परोपकार करना सिखाते हैं जिनके बारे में अचातम का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह न तो स्वयं की प्रसन्न रूप पाता है और न ही दूसरों को प्रसन्न करता है। आज समस्त सुख सुविधाएँ हीने के बावजूद भी बहुत सभी लोगों का मन अशांत रहता है, क्योंकि वे अपना को प्रसादात्मक ज्ञान का प्रत्यक्ष बोधक ज्ञान, सत्य, अहिंसा एवं निःवार्षा प्रेम का वातावरण स्वापित करने का सुविधा नहीं है। वहीं तो पैसे करने और सफलता की होड़ में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। मनुष्य जीवन में भवित और ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा मिलती है पर उसका उपयोग नहीं कर हम उसे ऐसे ही नहीं कर डालते हैं। ऐसे में वह ज्ञानी ध्यान है जो दाल-रोटी खाकर पेट भरते हुए भगवान भजन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय निकालते हैं।

## स्टार्ट लुक पाने के लिए चुनें सही चश्मा...



आजकल हर लड़के को वशम पहनना पसंद होता है। मार्केट में कई डिजाइन में वशम बिल जाते हैं, जो आपको सार्ट लुक में मदद कर सकते हैं। ऐसे अपर एक सही चश्मा का प्रयोग करते हैं तो उससे आप केवल जानवर के संकेत कर सकते हैं। अपने घेरे के साथ-साथ आपके दृष्टि विहार से बहार नहीं है। अगर आपको घेरे का आकार के लिए कैसा है। ज्यादातर घेरे हाथ आकार के होते हैं। गोल, आयलाकार, ऑवल और हार्ट डायमंड आकार। अपर आप अपने घेरे के आकार को ध्यान में रख कर बदलते तो ही तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होगी और आप अपने लिए एक सही चश्मा का चुनाव कर सकते हैं। अपने घेरे के आकार के साथ-साथ आपके दृष्टि विहार से बहार नहीं है। अगर आपका घेरा छोटा है और आप हर समय चश्मा पहने रखते हैं तो ही सकता है बड़े वशम आपके घेरे पर अच्छे न लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े वशम आपके घेरे पर अच्छे नहीं लगे। आप वहाँ तो कभी-भी आपने तुक में बदलाव करने के लिए बड़े वशमों का ध्यान करते हैं।

## ऑफिस में बने रहें मिस्टर कूल...



ऑफिस में काम करते समय कई बार लोगों को किसी भी बात पर गुरुसा आ जाता है। किसी भी कारण तानाका का माझील बन जाता है। काम के बालते कुछ न कुछ रस्ते ही जाता है। ऑफिस में अपने डैक्स पर एक छोटे गमले पर हरा पौधा रखे। यहीं का मानना है कि हरा पौधा देखने से मन को शाति मिलती है। एक छोटा हरा पौधा आपके चारों तरह के माझील में शाति फैलता है। जब भी ऑफिस में आपको किसी भी बात पर गुरुसा आ गया फिर काफी थकान लगता है इस हरे पौधे की तरफ देखें एवं अच्छा सोचें। ऑफिस में काम को लेकर आप गुस्से पर काबू पाने के लिए अपनी कुर्सी से उटका आपसांकु कुछ दूर के लिए ठहरे। ऐसा करने से काम से हीने गाला रसेस रुका होता है। मासांशेशी के फैलते हैं और मन में पॉजिटिव विचार आते हैं। काम के क्रैस्टरेशन को दूर करने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फि�र खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फि�र खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फि�र खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फि�र खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फि�र खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर आप आपनी बैंडी को स्ट्रेच करें। इसके अलावा आप काम के क्लॉप-पैटर्स द्वारा देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठकर या फिर खड